[illegible]

৩২৪

...नाविधिकाय: कत्र स:
... : गन्न स: मर्हक्काव: ज्ञेमा
ना: वीवज्रवाचादि: वयिसीनव: श्र
गनि: गुरुमंदव: दगुवियाय: थ
लिपूजायाय ... सपूजा: ध्यान: धृ
य: निर्जी ... ध: पूकुन्यास: गुनि:
ह्मिस्वधन: कुसनाय: तिलका पूजाया
दा: केशसयाथमसनेय: सिंदुनान: निर्जी
उनस्त्राय: पादार्घ: ह्रीस्नानान: किजाल
न: सिपामिनेय: धूनदायक: विहिस्वध
नयाय॥ ॥ आहुतिविय: वथमाहुति:

ह्ली नादह्नि: क[illegible] स्याह्नि: दवनाह्नि:
थूनि धूनकाव: दक्वाद वैना[illegible]नु: क्विल
नी: धूवनी: सिस्याह्नि: या [illegible] स[illegible]न
थनी: कलमथनी: स्यली [illegible] विय: नाल
नयानक्व: सिं धव· जिवक्व· स्यानविय:
लकस्यी धूननी [illegible] याह्नगु· वाकन· ह्ली

य: थूनि· [illegible] गा ॥ ॥ ॥

অনসূয়া

আশা আর্কাইভ
328
ASHA ARCHIVES

१ आदिन [illegible] … जमदिनस्वायना आ[illegible]
[illegible] नवग्रहदान यायमा वू बा

आ: स्वीना:	आ: [illegible]:	आ: मानि:	किज़ाकि:
ध्व: हस्तिम:	ध्व: [illegible]:	ध्व: मुथ:	
मं: वका:	मं: चूला:	मं: वुन:	
बु: [illegible]का:	बु: नूपत्र:	बु: कुकनी:	
बृ: [illegible]:	बृ: नूकोन:	बृ: [illegible]नाग	
शु: कमग्र:	शु: सना:	शु: दुन:	
श: मास:	श: कमग्रस्ना:	श: निव:	
रा: म्वान:	रा: सवा:	रा: गोवू:	
के: कोन:	के: थानस:	के: विद्व:	

आ: मिवूस्वी:	श: दूतनस्वी:	आ: मिवू जजका:
ध्व: [illegible]स्वी:	रा: ना कूस्वी:	ध्व: [illegible] जजका:
मं: [illegible]स्वी:	के: [illegible]	मं: [illegible]वू जजका:
बु: वथस्वी:	[illegible]	बु: [illegible]वू जजका:
बृ: [illegible]स्वी:		[illegible] जजका:
शु: [illegible]		शु: [illegible]निवनन जजका:
		श: नावू जजका: